

भाकृअनुप- केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन



केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) जोधपुर में हिन्दी पखवाड़ा समारोह दिनांक 14 से 28 सितम्बर 2022 तक आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई तथा भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री, माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के संदेशों का पाठन किया गया। पखवाड़े के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता संस्थान के प्रभारी निदेशक डॉ. एन.वी. पाटिल ने की। उन्होंने कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के निदेशों के अनुपालन में आयोजित हिंदी पखवाड़ा के आयोजन से संस्थानके कार्मिकों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। प्रभारी, पीएमई डॉ पी.सी. महाराणा ने कहा कि हिंदी हमारे राष्ट्रीय गौरव अस्मिता एवं स्वाभिमान की परिचायक है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वरिष्ठ ग्रेड) श्री सुरेश कुमार ने सभी कार्मिकों को राजभाषा प्रतिज्ञा की शपथ दिलायी तथा कहा कि हिन्दी सरल, सहज एवं सुगम भाषा है। उप निदेशक (राजभाषा) श्री नवीन कुमार यादव ने बताया कि संघ सरकार द्वारा हिन्दी के प्रोत्साहन एवं प्रचार-प्रसार के लिए अनेक योजनाएँ चलायी जा रही हैं। संस्थान में हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह दिनांक 28 अक्टूबर 2022 को समारोह पूर्वक मनाया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रो. किशोरी लाल पथिक, विभागाध्यक्ष जय नारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर ने काजरी कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्य में हिन्दी का प्रयोग करना एक प्रशंसनीय कार्य है उन्होंने कहा कि शोध कार्य के लिए जटिल शब्दावली के प्रयोग से बचना चाहिए तथा सरल भाषा में प्रकाशन प्रकाशित होने चाहिए। इस अवसर पर काजरी निदेशक डॉ. ओ.पी. यादव ने कहा कि हिन्दी एक सरल, भावनात्मक एवं वैज्ञानिक भाषा है। इसलिए हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करना चाहिये। उप निदेशक (राजभाषा) श्री नवीन कुमार यादव ने हिन्दी पखवाड़ा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। श्री यादव ने बताया कि हिंदी पखवाड़ा के दौरान श्रुत लेखन प्रतियोगिता, प्रश्न मंच, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, वाद-विवाद, अंताक्षरी, आशु भाषण, कम्प्यूटर पर यूनिकोड में हिन्दी टंकण, हिन्दी शोध पत्र एवं पोस्टर प्रदर्शनी तथा स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता आयोजित की गयी। प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए विजेताओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं प्रोत्साहन पुरस्कार राशि के रूप में क्रमशः 2000/-, 1500/-, 1100/- एवं 800/- रूपए प्रदान किये गये। कार्यक्रम का संचालन डॉ सोमा श्रीवास्तव एवं डॉ ऋतु मावर ने किया। श्री नवीन कुमार यादव, उप निदेशक (राजभाषा) ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।